

COP-16 सम्मेलन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में हरियाणा के पर्यावरण, वन और वन्यजीव मंत्री ने 2 से 13 दिसंबर, 2024 तक सऊदी अरब के रियाद में [मरुस्थलीकरण से निपटने के लिये संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन \(UNCCD\)- COP 16](#) में भाग लेने के लिये नई दिल्ली से एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।

मुख्य बंदि

- सहयोग के लिये मंच:
 - यह आयोजन ग्रीन जोन के व्यवसायों, वैज्ञानिकों, वित्तीय संस्थानों, गैर-सरकारी संगठनों (NGO) और प्रभावित समुदायों के लिये एक प्रभावी मंच के रूप में कार्य करेगा।
 - इसका उद्देश्य [भूमि पुनरस्थापन](#) और [सूखा प्रबंधन](#) के लिये सहयोग को सुविधाजनक बनाना और स्थायी समाधान विकसित करना है।
- अंतरराष्ट्रीय भागीदारी:
 - COP-16 में विश्व भर के विभिन्न देशों के प्रतिनिधि एक साथ आएँगे।
 - इस सम्मेलन के माध्यम से मरुस्थलीकरण से संबंधित चुनौतियों के समाधान पर वैश्विक स्तर पर चर्चा को प्रोत्साहन मिलने की संभावना है।

मरुस्थलीकरण से निपटने के लिये संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCCD)

- वर्ष 1994 में स्थापित, यह पर्यावरण और विकास को सतत भूमि प्रबंधन से जोड़ने वाला एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय समझौता है।
- यह विशेष रूप से शुष्क, अर्द्ध-शुष्क और शुष्क उप-आर्द्र क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है, जिनमें शुष्क भूमि के रूप में जाना जाता है, जहाँ कुछ सबसे कमजोर पारिस्थितिकी तंत्र और लोग पाए जा सकते हैं।
- सम्मेलन के 197 पक्ष [शुष्क भूमि पर लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने](#), भूमि और मृदा की उत्पादकता को बनाए रखने और बहाल करने तथा सूखे के प्रभावों को कम करने के लिये मिलकर काम करते हैं।
- UNCCD भूमि, जलवायु और जैव विविधता की परस्पर जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिये अन्य दो रथों सम्मेलनों के साथ काम करता है:
- [जैव विविधता पर कन्वेंशन \(CBD\)](#)
- [जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन \(UNFCCC\)](#)